



प्रेस नोट थाना एम.एम. गेट जनपद आगरा

थाना एम.एम. गेट पुलिस टीम द्वारा सट्टा लगाने वाले 02 अभियुक्तों को किया गया गिरफ्तार, कब्जे से 940/- रुपये व अन्य सामान बरामद...

श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद आगरा द्वारा दिये गये आदेशानुसार थाना क्षेत्र में अवैध शराब की तस्करी करने, जुआ, सट्टा व परिवहन, निर्माण आदि अपराधों की पूर्ण रोकथाम हेतु पुलिस अधीक्षक नगर के निर्देशन में, क्षेत्राधिकारी कोतवाली के सफल पर्यवेक्षण में थाना प्रभारी एम.एम. गेट को टीम गठित कर आवश्यक दिशा-निर्देश दिये गये।

इसी क्रमानुसार दिनांक 11.07.2021 को गठित पुलिस टीम द्वारा थाना क्षेत्र में संदिग्ध व्यक्ति/वाहन हेतु चैकिंग की जा रही थी। इस दौरान मुखबिर खास द्वारा सूचना दी गयी कि चित्रा टाँकीज के पास कुछ लोगो द्वारा सट्टे की खाईवाडी हो रही है यदि जल्दी की जाए तो पकड़ा जा सकता है।

पुलिस टीम द्वारा की गयी कार्यवाही का विवरण:-

पुलिस टीम ने मुखबिर द्वारा दी गयी सूचना पर तत्काल कार्यवाही करते हुये मुखबिर के बताये गये स्थान पर चारों ओर से घेर घोट कर एक बारगी दबिश देकर 02 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया गया। अभियुक्तों के कब्जे से 2 पर्चा सट्टा, 940/- रुपये बरामद हुये। इस सम्बन्ध में थाना एम.एम. गेट पर मु0अ0स0 64/21 धारा 13 जी एक्ट पंजीकृत किया गया।

➤ गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण:-

01. जहीर पुत्र सलीम निवासी ब्राह्मण गली मन्टोला मकान नं0 22/313 थाना मन्टोला जनपद आगरा।
02. मतीन पुत्र तहशद निवासी 22/301 ढोली खार थाना मन्टोला जनपद आगरा।

➤ अभियुक्तगणों से बरामदी का विवरण

01. 02 पर्चा सट्टा।
02. 940/- रुपये।

➤ गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम का विवरण:-





01. प्रभारी निरीक्षक श्री अवधेश अवस्थी थाना एम.एम. गेट जनपद आगरा ।
02. उ0नि0 राजीव कुमार थाना एम.एम. गेट जनपद आगरा ।
03. का0 2178 अनिल कुमार थाना एम.एम. गेट जनपद आगरा ।
04. का0 4895 लाल सिंह थाना एम.एम. गेट जनपद आगरा ।

मीडिया सेल जनपद आगरा ।